

उत्तराखण्ड शासन
सहकारिता गन्ना एवं चीनी अनुभाग-1
संख्या:- 623 /XIV-1/2018/08(01)/2016
देहरादून दिनांक 25 मई, 2018

:: कार्यालय ज्ञाप ::

सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग के पत्र संख्या-107/
XLIII(1)/18-02(01)/17, दिनांक 04 मई 2018 के क्रम में
“समाधान” योजना के अन्तर्गत समाधान Portal पर दर्ज Online Complaints
तथा Tool Free No:- 1905 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण
किये जाने हेतु सहकारिता विभाग के अधीन निम्न अधिकारियों को नोडल
अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नामित किया जाता है :-

क्र० सं०	नामित अधिकारी	पदनाम	विभाग	दूरभाष एवं ई० मेल	अन्य विवरण
1.	श्री अरुण कुमार	अनु सचिव	सहकारिता विभाग,	9927699158 E Mail ID- Arnkr79@yahoo.com	—
2.	श्रीमती ईरा उप्रेती	उप निबन्धक	सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड	9411355312 E Mail ID- rksalmora@gmail.com	—

उक्तानुसार नामित नोडल अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग की अपेक्षानुसार “समाधान” योजनान्तर्गत सहकारिता विभाग से संबंधित प्राप्त शिकायतों के संबंध में अग्रेत्तर आवश्यक अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।


(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या:- 623 / XIV-1/2018/08(01)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप सचिव, स्वराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग।
2. निदेशक, एन0आई0सी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
3. संबंधित नोडल अधिकारीगण।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।